

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2020 — पौष 16, शक 1941

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2020

आदेश

क्रमांक -114/9741/2019/रास/यू.-9. — संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा 52 (1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 15-3/2019/38-2, दिनांक 03 जनवरी, 2020 जारी की है और जो दिनांक 03 जनवरी, 2020 से प्रभावशील है, अतः मैं, अनुसुईया उइके, कुलाधिपति, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं राज्य शासन के परामर्श से संभागायुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करती हूँ.

हस्ता./-

(अनुसुईया उइके)

कुलाधिपति,

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय,
सरगुजा अम्बिकापुर.